



भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई
ईमेल: crpd@sbi.co.in



पुरस्कार एवं सम्मान



नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती

(विज्ञापन सं.: CRPD/SCO/2025-26/16)

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान: दिनांक 11.11.2025 से 01.12.2025 तक

भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग के निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे बैंक की अधिकारिक वेबसाइट <https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings> में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस अधिसूचना की निम्नलिखित विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद ही आवेदन करें।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ:

- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि पर उक्त पद के लिए दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों। उम्मीदवारों को वेबसाइट <https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings> का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब बैंक में ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि या उससे पहले शुल्क जमा करवा दिया गया हो।
- उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ न भेजें। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित के लिए यह सूचना दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर भारी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए। यदि पूर्वोक्त कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक संबंधित क्षेत्र में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विंडो की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, ईमेल, हस्ती सुपुर्दगी आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों की वैध ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर अवश्य हो जिसे परिणाम घोषित होने और अंतिम चयन पर कॉल लेटर जारी होने तक एक्टिव रखा जाए। इससे उन्हें ईमेल या मोबाइल पर एसएमएस द्वारा कॉल लेटर/साक्षात्कार सूचना आदि प्राप्त करने में सहायता होगी।
- बैंक भर्ती किए गए/नियुक्त अधिकारियों की सेवाओं का तैनात करने/स्थानांतरण भारत में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी कार्यालय में करने या उन्हें अपने किन्हीं सहयोगियों/अनुषंगियों के पास या किसी अन्य संस्था के पास तैनात करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो सेवा की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा। किसी विशिष्ट स्थान/कार्यालय पर नियुक्ति/स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अन्य विवरण एवं अद्यतन सूचना हेतु बैंक की वेबसाइट <https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings> को नियमित रूप से देखें। **विज्ञापन में होने वाले किसी परिवर्तन/अद्यतन सूचना को अलग से विज्ञापित/सूचित नहीं किया जाएगा। सभी परिवर्तन/अपडेट/संशोधन/शुद्धिपत्र/परिणाम/शेड्यूल/शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों की सूची आदि केवल बैंक की वेबसाइट पर ही होस्ट किए जाएंगे। कॉल लेटर/सूचना, जहां भी आवश्यक हो, केवल ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी (कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी)।**
- उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज (जीवन वृत्त, पहचान का प्रमाण, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यताएं/प्रमाणपत्र, अनुभव का प्रमाण आदि) अपलोड करने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन/उम्मीदवारी पर शॉर्टलिस्टिंग/साक्षात्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भर्ती के सभी चरणों (जैसे शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार आदि) में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अनंतिम होगा। चयनित सूची दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अनंतिम होगी। साक्षात्कार के समय (यदि बुलाया जाता है तो) उम्मीदवार द्वारा मूल प्रतियों सहित सभी विवरणों/दस्तावेजों का सत्यापन करवाए जाने पर ही उसकी उम्मीदवारी मानी जाएगी।
- चयनित उम्मीदवारों को बैंक में नियुक्ति ऑफर की जा सकती है, बशर्ते कि वे अन्य औपचारिकताएं जैसे कि पात्रता, क्रेडेंशियल्स, प्रमाणपत्रों का सत्यापन, संदर्भों से संतोषजनक रिपोर्ट, चिकित्सा जाँच और पूर्ववृत्त का सत्यापन आदि पूरी करते हों।
- आयु में छूट, शुल्क में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को उस समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी का वैध अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जब दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसा प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अन्यथा, उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- उम्मीदवार जिनके खिलाफ चरित्र और पूर्ववृत्त (कैरेक्टर एंड एंटीसिडण्टस), नैतिकता आदि के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट हैं, वह भी इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों के विरुद्ध ऐसे कोई भी प्रतिकूल आदेश/रिपोर्ट उनके चयन के बाद बैंक को मिलती/प्राप्त होती है, तो उनकी उम्मीदवारी/सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
- उम्मीदवार को एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है।**
- यदि किसी उम्मीदवार द्वारा एक ही पद/एकाधिक पदों के लिए एक से अधिक आवेदन (बहु आवेदन) प्रस्तुत किए जाते हैं, तो केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन ही रखा जाएगा, और अन्य रजिस्ट्रेशनों के लिए प्रदत्त आवेदन शुल्क आदि जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, साक्षात्कार/कार्यग्रहण के समय एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक हाजिरी/उपस्थिति की परिणति उम्मीदवारी को सरासरी तौर पर अस्वीकृति/रद्दीकरण में होगी।
- बैंक बिना कोई कारण बताए, आरक्षित रिक्तियों सहित अधिसूचित रिक्तियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी विशेष पद/सभी पदों के लिए किसी भी स्तर/समय पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द/संशोधित करने, यदि ऐसा आवश्यक हो, का अधिकार सुरक्षित रखता है, और बैंक आवेदक को शुल्क वापस करने या कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- गलत जानकारी प्रस्तुत करने/तथ्यों को छिपाने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कानूनी/आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। जो उम्मीदवार धोखाधड़ी/छद्मव्यक्तित्व का प्रयास करेंगे, उन्हें बैंक द्वारा आयोजित भविष्य की भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवार, नियुक्ति के बाद, संबंधित पद के लिए समय-समय पर लागू/संशोधित/आशोधित बैंक की मौजूदा भर्ती नीति के अनुसार परीक्षा पर होंगे।
- इस परियोजना के तहत सभी नियुक्तियाँ पूरी तरह से बैंक के विवेकाधिकार पर होंगी और पद के लिए स्वीकार्य वेतनमान के प्रारंभिक चरण में की जाएंगी।
- यदि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो बैंक साक्षात्कार के लिए स्थान/केंद्र तय करेगा। यदि उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, तो उन्हें बैंक द्वारा निर्धारित केंद्र/स्थान पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा और इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और यदि वह पात्रता मानदंडों (आयु, शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता और अनुभव आदि) को पूरा नहीं करता/करती है तो उसे न तो साक्षात्कार में उपस्थित होने दिया जाएगा और न ही वह यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ अंक पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।
- किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- जो उम्मीदवार सरकार/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उन्हें सूचना दी जाती है कि वे **साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा** और वे यदि किसी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, तो उन्हें उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
- चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने वर्तमान नियोक्ता का उचित डिस्चार्ज बुक प्रस्तुत करें।

25. सिबिल (CIBIL): जिन उम्मीदवारों ने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि सहित बैंकों/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थाओं के साथ किसी भी उधार व्यवस्था के तहत चुकौती में चूक की है और बैंक द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख तक उनके बकाया को नियमित/चुकाया नहीं है, वे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव-पत्र जारी होने की तारीख को या उससे पहले इस तरह के बकाया को नियमित कर लिया है/चुका दिया है, लेकिन जिनकी **सिबिल (CIBIL)** स्थिति को शामिल होने की तारीख को या उससे पहले अपडेट नहीं किया गया है, उन्हें या तो सिबिल की स्थिति को अपडेट कराना होगा या ऋणदाता से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सिबिल में प्रतिकूल रूप से दर्शाए गए खातों के संबंध में कोई बकाया नहीं है, ऐसा न करने पर प्रस्ताव पत्र वापस ले लिया जाएगा/रद्द कर दिया जाएगा. इस प्रकार, ऋण/क्रेडिट कार्ड बकाए के भुगतान में चूक के रिकॉर्ड और/या जिनके नाम पर सिबिल या अन्य बाहरी एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट उपलब्ध है, ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं.

क. पद/श्रेणी/रिक्तियों/आयु का विवरण:

क्र. सं.	पद का नाम	श्रेणी	रिक्तियाँ						पीडब्ल्यूबीडी (समस्तरीय)				आयु वर्षों में (01.11.2025 तक)	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	यूआर	कुल	वीआई	एचआई	एलडी	डी एवं ई	न्यूनतम	अधिकतम
1.	प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)	एमएमजीएस-III	-	-	1	-	4	5	1	-	-	-	28	40
2.	उप प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)	एमएमजीएस-II	-	-	1	-	4	5	1	-	-	-	25	35
	कुल		-	-	2	-	8	10	2	-	-	-		

संक्षेपाक्षर: **एमएमजीएस** – मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान; **अ.जा.** – अनुसूचित जाति, **अ.ज.जा.** – अनुसूचित जनजाति; **अ.पि.व.** – अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर); **ईडब्ल्यूएस** – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; **यूआर** – अनारक्षित; **पीडब्ल्यूबीडी** – निर्धारित दिव्यांगता वाले उम्मीदवार; **वीआई** – दृष्टि बाधित; **एचआई** – श्रवण दोषी; **एलडी** – लोकोमोटर दिव्यांगता;

महत्वपूर्ण बिंदु:

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समस्तरीय है और संबंधित मूल श्रेणी की समग्र रिक्ति में शामिल है.
- ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्तियों की संख्या **अनंतिम है** और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार **बदल सकती है**.
- चयनित उम्मीदवारों की तैनाती/प्लेसमेंट/उपयोग बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर किया जाएगा.
- इंगित अधिकतम आयु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार **ऊपरी आयु सीमा में छूट** उपलब्ध है (जहां लागू हो).
- विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण भारत सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.
- ऐसे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन ‘क्रीमी लेयर’ से आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण एवं आयु छूट के लिए पात्र नहीं होंगे. उन्हें अपनी श्रेणी ‘यूआर’ या यूआर (पीडब्ल्यूबीडी), के रूप में दर्शाना चाहिए.
- ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण माँगने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा जमा करवानी होगी कि वह आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की आखरी तिथि को क्रीमी लेयर से नहीं है. **यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को 01.04.2025 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया ‘नॉन क्रीमी लेयर’ अनुच्छेद वाला ओबीसी प्रमाण-पत्र, जमा करना चाहिए.** उक्त तारीख के बाद ‘प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
- निर्धारित दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी), जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, सहित आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.
- पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी सहित आरक्षित श्रेणी (अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी) के तहत आरक्षण/छूट का लाभ केवल **भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर** सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उठाया जा सकता है.
- ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगी** (जहां लागू हो):

क्र.	श्रेणी	आयु में छूट (वर्षों में)	
क)	अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) (नॉन क्रीमी लेयर)	3	
ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अजा/अजजा)	5	
ग)	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	- पीडब्ल्यूबीडी (यूआर/ईडब्ल्यूएस)	10
		- पीडब्ल्यूबीडी (अपिव)	13
		- पीडब्ल्यूबीडी (अजा/अजजा)	15

टिप्पणी: आयु सीमा संबंधी छूट उपर्युक्त मर्दों या विभिन्न मर्दों के अंतर्गत दर्शायी गई अन्य आयु सीमा की छूटों को मिलाकर नहीं दी जाएगी. आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने पर समूह अभ्यास/साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी. ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात, किसी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है. इस संबंध में किसी पत्र-व्यवहार/ ई-मेल/फोन पर विचार नहीं किया जाएगा.

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- केवल **निर्धारित दिव्यांगता** वाले व्यक्ति ही निर्धारित दिव्यांगता (PwBD) श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र होंगे. **‘निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्ति’** से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम **40 प्रतिशत दिव्यांग हो**, उन मामलों में जहाँ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है. तथा इसके अंतर्गत वह दिव्यांग व्यक्ति भी आता है जिसकी दिव्यांगता को प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार मापन श्रेणी में रखा गया है. आरक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकारी या किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा. **प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए. वैध प्रमाण पत्र के अभाव में, उम्मीदवारी बैंक द्वारा रद्द/स्वीकार नहीं की जाएगी और इस संबंध में किसी भी पत्र-व्यवहार पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.** दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को समस्तरीय आरक्षण दिया गया है. पद के लिए दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियां और कार्यात्मक अपेक्षाएं भारत के राजपत्र, अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 4 जनवरी 2021, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संदर्भ में होंगी.

ख. शैक्षणिक योग्यता/प्रमाणपत्र/कार्य अनुभव/आवश्यक विशिष्ट कौशल का विवरण:

पद संख्या/पद नाम	1 - प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)
मूल योग्यता (01.11.2025 तक)	अनिवार्य: वित्त/गणित/सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री अथवा डेटा विज्ञान / आईटी / कंप्यूटर विज्ञान / सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक (भारत सरकार/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त / सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से). अधिमान्य: वित्त में एमबीए/ पीजीडीएम / पीजीडीबीएम / पीजीडीबीए/ सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र / अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री.

अन्य योग्यता/प्रमाणपत्र (01.11.2025 तक)	अधिमान्य प्रमाणपत्र: (01.11.2025 को मान्य) ➤ जीएआरपी द्वारा एफआरएम ➤ पीआरआईएमए द्वारा पीआरएम ➤ सीएफए ➤ सीक्यूएफ ➤ मशीन लर्निंग/ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वेब क्रॉलिंग और न्यूट्रल नेटवर्क में कोई भी प्रमाणन (प्रमाणन 01.11.2025 को मान्य होना चाहिए).
कार्य अनुभव (मूल योग्यता के बाद) (01.11.2025 तक)	अनिवार्य: वाणिज्यिक बैंकों/ एनबीएफसी/ निवेश बैंकों की मात्रात्मक / जोखिम विश्लेषण / मूल्यांकन / मॉडल सत्यापन / सामान्य लेखा नीतियों, निवेश/डेरिवेटिव आदि पर कार्य करने से संबंधित कार्य में मूल शैक्षिक योग्यता के बाद न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव. और कुल 5 वर्षों के अनुभव में से, डेटा विज्ञान में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषाओं – R/पाइथन या समान भाषा के साथ न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव. (प्रशिक्षण एवं शिक्षण अनुभव को पात्रता हेतु नहीं गिना जाएगा) नोट: आवेदक को प्रासंगिक/आवश्यक अनुभव को प्रमाणित करने वाला अनुभव प्रमाण पत्र/कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों पर बैंक के पूर्ण विवेकानुसार गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा और बैंक का निर्णय अंतिम होगा.
विशिष्ट कौशल:	➤ तकनीकी कौशल: सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाओं (जैसे, R, पायथन, SAS) में दक्षता. वित्तीय मॉडलिंग उपकरणों और तकनीकों की जानकारी. ➤ उत्कृष्ट संप्रेक्षण कौशल (मौखिक और लिखित दोनों). ➤ जावा का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता होगी. ➤ मशीन लर्निंग/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता होगी. ➤ स्व-प्रेरित, सक्रिय और कार्य निष्पादन के प्रति असाधारण प्रेरणा प्रदर्शित करने वाला. ➤ अर्ध-संरचित और असंरचित डेटा का उपयोग करके मॉडल विकसित करने की जानकारी. ➤ डेटा एक्सट्रैक्शन से लेकर मॉडलिंग और उसके सत्यापन तक का संपूर्ण अनुभव. ➤ एक डेवलपर के रूप में परियोजना परिवेश में कार्य करने का अनुभव.

पद संख्या/पद नाम	2 - उप प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)
मूल योग्यता (01.11.2025 तक)	अनिवार्य: वित्त/गणित/सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री अथवा डेटा विज्ञान / आईटी / कंप्यूटर विज्ञान / सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीई/बी.टेक (भारत सरकार/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त / सरकारी विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से). अधिमान्य: वित्त में एमबीए/ पीजीडीएम / पीजीडीबीएम / पीजीडीबीए/ सांख्यिकी / गणित / अर्थशास्त्र / अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री.
अन्य योग्यता/प्रमाणपत्र (01.11.2025 तक)	अधिमान्य प्रमाणपत्र: (01.11.2025 को मान्य) ➤ जीएआरपी द्वारा एफआरएम ➤ पीआरआईएमए द्वारा पीआरएम ➤ सीएफए ➤ सीक्यूएफ ➤ मशीन लर्निंग/ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वेब क्रॉलिंग और न्यूट्रल नेटवर्क में कोई भी प्रमाणन (प्रमाणन 01.11.2025 को मान्य होना चाहिए).
कार्य अनुभव (मूल योग्यता के बाद) (01.11.2025 तक)	अनिवार्य: वाणिज्यिक बैंकों/ एनबीएफसी/ निवेश बैंकों की मात्रात्मक / जोखिम विश्लेषण / मूल्यांकन / मॉडल सत्यापन / सामान्य लेखा नीतियों, निवेश/डेरिवेटिव आदि पर कार्य करने से संबंधित कार्य में मूल शैक्षिक योग्यता के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव. और कुल 3 वर्षों के अनुभव में से, डेटा विज्ञान में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषाओं – R/पाइथन या समान भाषा के साथ न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव. (प्रशिक्षण एवं शिक्षण अनुभव को पात्रता हेतु नहीं गिना जाएगा) नोट: आवेदक को प्रासंगिक/आवश्यक अनुभव को प्रमाणित करने वाला अनुभव प्रमाण पत्र/कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों पर बैंक के पूर्ण विवेकानुसार गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा और बैंक का निर्णय अंतिम होगा.

विशिष्ट कौशल:	➤ तकनीकी कौशल: सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाओं (जैसे, R, पायथन, SAS) में दक्षता. वित्तीय मॉडलिंग उपकरणों और तकनीकों की जानकारी. ➤ उत्कृष्ट संप्रेक्षण कौशल (मौखिक और लिखित दोनों). ➤ जावा का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता होगी. ➤ मशीन लर्निंग/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता होगी. ➤ स्व-प्रेरित, सक्रिय और कार्य निष्पादन के प्रति असाधारण प्रेरणा प्रदर्शित करने वाला. ➤ अर्ध-संरचित और असंरचित डेटा का उपयोग करके मॉडल विकसित करने की जानकारी. ➤ डेटा एक्सट्रैक्शन से लेकर मॉडलिंग और उसके सत्यापन तक का संपूर्ण अनुभव. ➤ एक डेवलपर के रूप में परियोजना परिवेश में कार्य करने का अनुभव.
---------------	--

महत्वपूर्ण बिंदु:

- विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है. उम्मीदवार को निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार मूल योग्यता के बाद और प्रासंगिक पूर्णकालिक अनुभव होना चाहिए.
- नियोक्ता से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव है.
- यदि डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाणपत्र विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं निर्दिष्ट करते हैं, तो उम्मीदवार को संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज से विशेष रूप से विशेषज्ञता का उल्लेख करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों को स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत निकटतम दो दशमलव तक दर्शाने होंगे. यदि सीजीपीए/ओजीपीए दिए गए हों, तो उन्हें प्रतिशत में रूपांतरित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवार को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी को प्रतिशत में रूपांतरित करने संबंधी विश्वविद्यालय के नियम और उन नियमों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए अंकों के प्रतिशत लिखे होने चाहिए.

ग. कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा, भूमिका और दायित्व, कार्य और कार्यकलाप का विवरण:

क्र. सं.	पद	कार्य की रूपरेखा, भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्यों के विवरण
1.	प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)	भूमिका: मॉडल सत्यापनकर्ता ज़िम्मेदारियाँ और कार्य: ➤ मॉडल सत्यापन: वित्तीय मॉडलों की सटीकता, विश्वसनीयता और विनियामक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके सत्यापन में सहायता करना. ➤ डेटा विश्लेषण: मॉडलों के प्रदर्शन और सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने के लिए उन पर सांख्यिकीय विश्लेषण और तनाव परीक्षण करना. ➤ दस्तावेजीकरण: सत्यापन प्रक्रियाओं, निष्कर्षों और सिफारिशों का विस्तृत दस्तावेजीकरण तैयार करना. ➤ सहयोग: मॉडल सत्यापन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वरिष्ठ मॉडल सत्यापनकर्ताओं, जोखिम प्रबंधन, वित्त और आईटी विभागों के साथ मिलकर काम करना. ➤ अनुपालन: सुनिश्चित करना कि मॉडल आंतरिक नीतियों और विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हैं. ➤ निरंतर सुधार: मॉडल सत्यापन ढाँचों और कार्यप्रणालियों के विकास और संवर्धन में योगदान देना. ➤ रिपोर्टिंग: वरिष्ठ प्रबंधन और विनियामक निकायों के लिए सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना. ➤ बैंक द्वारा सौंपी गई कोई अन्य भूमिका. केआरए: ➤ आईएमवीटी (IMVT) के लिए प्रस्तुत सभी मॉडलों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना. ➤ मूल्यांकन समायोजन मॉडलों जैसे कि मॉडल जोखिम अनिश्चितता या पोजीशनों के संकेंद्रण के लिए गणना पद्धतियाँ विकसित करना. ➤ ट्रेडिंग जोखिम पद्धतियाँ विकसित करना, जैसे कि वृद्धिशील जोखिम प्रभार (आईआरसी/डीआरसी), वीएआर परिदृश्य विनिर्देश, मॉडल में शामिल नहीं जोखिम, ऐतिहासिक बाजार डेटा मॉडल, तनाव परीक्षण और यदि आवश्यक हो तो आर्थिक पूंजी मॉडल. ➤ प्रतिपक्ष ऋण जोखिम मॉडल विकसित करना. ➤ सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके ऋण जोखिम मॉडल विकसित करना और उसे बनाए रखना. ➤ व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझने और उन्हें मॉडल विनिर्देशों में रूपांतरित करने के लिए परस्पर कार्यात्मक टीमों के साथ सहयोग करना. ➤ मॉडलिंग के लिए डेटासेट तैयार करने हेतु डेटा एक्सट्रैक्शन, सफाई और पूर्व-प्रसंस्करण करना. ➤ सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मॉडलों का सत्यापन और पश्च-परीक्षण करना. ➤ वैचारिक सुदृढ़ता, इनपुट अखंडता, अंशांकन, पश्च-परीक्षण और परिणाम विश्लेषण का आकलन करें. ➤ समय पर समापन के लिए दस्तावेज़ सत्यापन रिपोर्ट और निष्कर्षों पर नज़र रखना. ➤ विभिन्न विभागों के मॉडल स्वामियों के साथ समन्वय स्थापित करना. ➤ उन मॉडलों के निरंतर प्रदर्शन (जैसे, सटीकता अनुपात, गिनी, पश्च-परीक्षण त्रुटियाँ) की निगरानी करना जहाँ निगरानी का कार्य आईएमवीटी को सौंपा गया है. ➤ लेखा परीक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और आवश्यक प्रकटीकरण प्रस्तुत करना. ➤ आवश्यक होने पर वरिष्ठ प्रबंधन और नियामकों को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना. ➤ मॉडल जोखिम, सत्यापन तकनीकों और विनियामक घटनाक्रमों पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण आयोजित करना. ➤ बैंक की नीति के अनुसार मॉडल जीवन चक्र प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार रहना. ➤ जब भी आवश्यक हो, विभिन्न संस्थाओं/उप-समूहों की आवधिक बैठकें आयोजित करना और कार्यवाही आदि का दस्तावेजीकरण करना. ➤ सिस्टम और आईटी एकीकरण उपकरणों में सहायता प्रदान करना. (केआरए सांकेतिक हैं और आवश्यकतानुसार संशोधित किए जा सकते हैं.)

2.	उप प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)	भूमिका: मॉडल सत्यापनकर्ता जिम्मेदारियाँ और कार्य: ➤ मॉडल सत्यापन: वित्तीय मॉडलों की सटीकता, विश्वसनीयता और विनियामक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके सत्यापन में सहायता करना. ➤ डेटा विश्लेषण: मॉडलों के प्रदर्शन और सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने के लिए उन पर सांख्यिकीय विश्लेषण और तनाव परीक्षण करना. ➤ दस्तावेजीकरण: सत्यापन प्रक्रियाओं, निष्कर्षों और सिफारिशों का विस्तृत दस्तावेजीकरण तैयार करना. ➤ सहयोग: मॉडल सत्यापन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वरिष्ठ मॉडल सत्यापनकर्ताओं, जोखिम प्रबंधन, वित्त और आईटी विभागों के साथ मिलकर काम करना. ➤ अनुपालन: सुनिश्चित करना कि मॉडल आंतरिक नीतियों और विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हैं. ➤ निरंतर सुधार: मॉडल सत्यापन ढाँचों और कार्यप्रणालियों के विकास और संवर्धन में योगदान देना. ➤ रिपोर्टिंग: वरिष्ठ प्रबंधन और विनियामक निकायों के लिए सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना. ➤ बैंक द्वारा सौंपी गई कोई अन्य भूमिका. केआरए: ➤ आईएमवीटी (IMVT) के लिए प्रस्तुत सभी मॉडलों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना. ➤ मूल्यांकन समायोजन मॉडलों जैसे कि मॉडल जोखिम अनिश्चितता या पोजीशनों के संकेंद्रण के लिए गणना पद्धतियाँ विकसित करना. ➤ ट्रेडिंग जोखिम पद्धतियाँ विकसित करना, जैसे कि वृद्धिशील जोखिम प्रभार (आईआरसी/डीआरसी), वीएआर परिदृश्य विनिर्देश, मॉडल में शामिल नहीं जोखिम, ऐतिहासिक बाजार डेटा मॉडल, तनाव परीक्षण और यदि आवश्यक हो तो आर्थिक पूंजी मॉडल. ➤ प्रतिपक्ष ऋण जोखिम मॉडल विकसित करना. ➤ सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके ऋण जोखिम मॉडल विकसित करना और उसे बनाए रखना. ➤ व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझने और उन्हें मॉडल विनिर्देशों में रूपांतरित करने के लिए परस्पर कार्यात्मक टीमों के साथ सहयोग करना. ➤ मॉडलिंग के लिए डेटासेट तैयार करने हेतु डेटा एक्सट्रैक्शन, सफाई और पूर्व-प्रसंस्करण करना. ➤ सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मॉडलों का सत्यापन और पश्च-परीक्षण करना. ➤ वैचारिक सुदृढ़ता, इनपुट अखंडता, अंशांकन, पश्च-परीक्षण और परिणाम विश्लेषण का आकलन करें. ➤ समय पर समापन के लिए दस्तावेज़ सत्यापन रिपोर्ट और निष्कर्षों पर नज़र रखना. ➤ विभिन्न विभागों के मॉडल स्वामियों के साथ समन्वय स्थापित करना. ➤ उन मॉडलों के निरंतर प्रदर्शन (जैसे, सटीकता अनुपात, गिनी, पश्च-परीक्षण त्रुटियाँ) की निगरानी करना जहाँ निगरानी का कार्य आईएमवीटी को सौंपा गया है. ➤ लेखा परीक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और आवश्यक प्रकटीकरण प्रस्तुत करना. ➤ आवश्यक होने पर वरिष्ठ प्रबंधन और नियामकों को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना. ➤ मॉडल जोखिम, सत्यापन तकनीकों और विनियामक घटनाक्रमों पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण आयोजित करना. ➤ बैंक की नीति के अनुसार मॉडल जीवन चक्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार रहना. ➤ जब भी आवश्यक हो, विभिन्न संस्थाओं/उप-समूहों की आवधिक बैठकें आयोजित करना और कार्यवाही आदि का दस्तावेजीकरण करना. ➤ सिस्टम और आईटी एकीकरण उपकरणों में सहायता प्रदान करना. (केआरए सांकेतिक हैं और आवश्यकतानुसार संशोधित किए जा सकते हैं.)
----	--	---

टिप्पणी: वास्तविक केआरए कार्यग्रहण करने पर सौंपा जाएगा. ऊपर वर्णित भूमिकाएं/दायित्व/कार्य रूपरेखा उदाहरण स्वरूप में हैं. ऊपर उल्लिखित दायित्वों के अलावा, अन्य भूमिकाएं/ जिम्मेदारियां/ गतिविधियां/ मुख्य पारस्परिक क्रियाएं/ गतिविधियाँ बैंक द्वारा समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर सौंपी जा सकती हैं.

नियमित पदों पर चयनित उम्मीदवार एसबीआई के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे.

घ. पारिश्रमिक/ सुझाया गया तैनाती स्थान:

क्र. सं.	पद का नाम	श्रेणी	वेतनमान	सुझाया गया तैनाती स्थान \$
1.	प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)	एमएमजीएस-III	मूल वेतन: 85920-2680/5-99320-2980/2-105280 समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, पीएफ, अंशदायी पेंशन फंड यानी एनपीएस, एलएफसी, चिकित्सा सुविधा, अवकाश आदि और बैंक की वेतन संरचना के अनुसार वेतन और भत्ते के लिए पात्र.	मुंबई
2.	उप प्रबंधक (जोखिम विशेषज्ञ – मॉडल जोखिम प्रबंधन)	एमएमजीएस-II	मूल वेतन: 64820-2340/1-67160-2680/10-93960 समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, पीएफ, अंशदायी पेंशन फंड यानी एनपीएस, एलएफसी, चिकित्सा सुविधा, अवकाश आदि और बैंक की वेतन संरचना के अनुसार वेतन और भत्ते के लिए पात्र.	
\$ ऊपर उल्लिखित सुझाया गया तैनाती स्थान केवल सांकेतिक है. चयनित उम्मीदवारों को बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है. नोट: चयनित उम्मीदवारों की तैनाती/ प्लेसमेंट/ उपयोग बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर किया जाएगा.				

ड. परिवीक्षा अवधि/ स्थायीकरण: चयनित उम्मीदवार, नियुक्ति के बाद, समय-समय पर लागू/संशोधित/परिवर्तित बैंक की मौजूदा भर्ती नीति के अनुसार परिवीक्षा पर होंगे.

च. चयन प्रक्रिया: चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर होगा.

- ❖ **शॉर्टलिस्टिंग:** न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. बैंक द्वारा गठित शॉर्टलिस्टिंग समिति शॉर्टलिस्टिंग मानदंड निर्धारित करेगी और उसके पश्चात् बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे. बातचीत के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा. **इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.**
- ❖ **साक्षात्कार:** साक्षात्कार 100 अंकों का होगा. साक्षात्कार में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
- ❖ **मेरिट सूची:** चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी. एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट अंक प्राप्त करने पर (निर्दिष्ट सीमा पर एक समान अंक होने पर), ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में रैंक की जाएगी.

छ. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

बातचीत के लिए सूचना/ कॉल लेटर बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा या ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, जैसा भी बैंक द्वारा तय किया जाएगा. **कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी.**

ज. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों की **वैध ईमेल आईडी** हो जिसे परिणाम घोषित होने तक एक्टिव रखा जाए. इससे उसे अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश:	शुल्क भुगतान के लिए दिशानिर्देश:
i. उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें और इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ यूपीआई आदि का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें. ii. उम्मीदवार सर्वप्रथम अपने नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करें. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवार अपनी फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन पंजीकरण पेज पर बताए अनुसार अपलोड (‘दस्तावेज अपलोड कैसे करें’ के अंतर्गत) नहीं कर देता/देती. iii. उम्मीदवार आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें. आवेदन पूरी तरह से भरने के बाद ही इसे प्रस्तुत करें. यदि एक बार में उम्मीदवार आवेदन नहीं भर पाता है, तो वह पहले से प्रविष्ट जानकारी को सेव कर सकता/सकती है. जब जानकारी/आवेदन को सेव किया जाएगा तो एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा और यह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. उम्मीदवार इस पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को नोट कर लें. वे इस सेव किए हुए आवेदन को पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का प्रयोग कर फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो दिए गए विवरण में संशोधन कर सकते हैं. सेव की गई जानकारी को इस तरह से बदल कर संशोधन करने की अनुमति मात्र तीन बार तक होगी. आवेदन के पूरी तरह भर जाने उम्मीदवार इसे प्रस्तुत करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें. iv. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को यह सूचना दी जाती है कि वे सिस्टम के बनाए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों को प्रिन्ट कर लें. v. आयु सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन करते समय जरूरी प्रमाणपत्र (पत्रों) की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी. ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात, किसी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है.	i. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (वापस न करने योग्य) ₹750/- है (सात सौ पचास रुपए मात्र) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निर्धारित दिव्यांग व्यक्ति के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क/सूचना प्रभार नहीं है. ii. आवेदन पत्र के विवरण सही हैं यह सुनिश्चित कर लेने के बाद उम्मीदवार द्वारा आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद आवेदन में कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. iii. शुल्क का भुगतान वहां उपलब्ध भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ही करना होगा. भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग/यूपीआई आदि द्वारा स्क्रीन पर बताई जानकारी के अनुसार किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान करते समय यदि कोई लेनदेन शुल्क लागू हो तो वह उम्मीदवारों को ही वहन करना होगा. iv. भुगतान कार्य सफलतापूर्वक हो जाने के बाद उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने की तारीख के साथ ई-रसीद और आवेदन फॉर्म बनेगा जिसे प्रिन्ट कर उम्मीदवार अपने पास रख लें. v. यदि पहली बार में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन भुगतान के लिए फिर से प्रयास करें. vi. शुल्क विवरणों सहित ई-रसीद और आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट फिर से करने का भी प्रावधान है. vii. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी कारण से वापस नहीं लौटाया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या भावी चयन के लिए समायोजित किया जाएगा.

झ. दस्तावेज़ को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ का विवरण: i. नवीनतम फोटोग्राफ ii. हस्ताक्षर iii. बायोडाटा (प्रारूप संलग्न) (पीडीएफ) iv. जीवन वृत्त (पीडीएफ) v. आईडी प्रमाण (पीडीएफ) vi. जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ) vii. शैक्षणिक योग्यता: संबंधित अंक तालिका/डिग्री प्रमाणपत्र (पीडीएफ) viii. अनुभव प्रमाणपत्र (पीडीएफ) ix. जाति प्रमाणपत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, (यदि लागू हो) (पीडीएफ) x. पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र, (यदि लागू हो) (पीडीएफ) xi. अधिमान्य योग्यता/प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) (पीडीएफ) xii. फॉर्म-16/ऑफर लेटर/वर्तमान नियोक्ता से नवीनतम वेतन पर्ची (पीडीएफ) ब. फोटोग्राफ फाइल टाइप/साइज: i. पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए. ii. फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी और डायमेंशन 200X230 पिक्सल (अधिमानतः) तक होना चाहिए. iii. यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो. iv. तनावमुक्त होकर कैमरे में सामने की ओर देखें. v. फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई छाया न पड़े. vi. यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें रेड-आई नहीं है. vii. यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं. viii. टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए. ix. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि जैसी बातें स्कैनर पर सेट कर लें. स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार: i. आवेदक सफेद कागज पर काली पेन से हस्ताक्षर करें. ii. हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे न कि कोई अन्य व्यक्ति. iii. कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां हस्ताक्षर का उपयोग किया जाएगा. iv. फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच का हो और डायमेंशन 140X60 पिक्सल (अधिमानतः) हो. v. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है. vi. अंग्रेज़ी के केपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे. द. दस्तावेज़ की फाइल का प्रकार/आकार: i. सभी दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में हों. (फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को छोड़कर) ii. दस्तावेज़ के पृष्ठ का आकार ए4 का हो. iii. फाइल का आकार 500 केबी से अधिक का न हो.	iv. दस्तावेज़ को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिज़ोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ साफ और पढ़े जा सकने योग्य हैं. य. फोटो/हस्ताक्षर/दस्तावेज़ को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश: i. स्कैनर के रिज़ोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स पर इन्च) पर रखें. ii. कलर को टू कलर पर सेट करें. iii. फोटो/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके इमेज को स्कैन करें फिर इमेज को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें. iv. फोटो/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे) v. इमेज के आयाम फोल्डर/फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयर्कन पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है vi. जो उम्मीदवार एमएस विन्डोज़/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसलिए एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फॉर्मेट से जेपीजी (jpg) फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं. इसके लिए फाइल मेन्यू में ‘सेव ऐज़’ के विकल्प का प्रयोग करना होगा. इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज़ (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्स्ल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है. इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडीटर में भी उपलब्ध हैं. vii. ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके. र. दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया: i. प्रत्येक दस्तावेज़ को अपलोड करने हेतु अलग-अलग लिंक दिए गए हैं. ii. ‘‘अपलोड’’ का संबंधित लिंक क्लिक करें. iii. ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ, डीओसी या डीओसीएक्स फाइल को सेव किया गया है. iv. फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें. v. आवेदन सबमिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटि का संदेश आएगा. vi. दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/परिवर्तित नहीं हो सकेंगे. vii. ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद उम्मीदवार जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं. फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/सकती है. फोटो पर चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.
--	--

- ज. सामान्य जानकारी:**
- i. पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्त वर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/करती है और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण सभी प्रकार से सही है.
 - ii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, उन उम्मीदवारों को शामिल करके जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है, सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों.
 - iii. भर्ती के किसी भी स्तर पर यदि ऐसा पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो और/या यह कि उसने गलत/झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (जानकारियां) छिपाई हैं तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसके नियुक्ति/अंतिम चयन के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त की जा सकती हैं.
 - iv. आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और सही एवं पूरी तरह से भरा गया है.
 - v. चयनित उम्मीदवार कि नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित किए जाने के अधीन है. इस तरह कि नियुक्ति बैंक में ऐसे पद के लिए बैंक के सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी, जो बैंक में भर्ती होने के समय लागू है.
 - vi. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी एवं मोबाईल फोन नंबर को एक्टिव रखें.
 - vii. किसी पत्र प्राप्ति में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
 - viii. जो उम्मीदवार सरकार/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उन्हें सूचना दी जाती है कि वे साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और वे यदि किसी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, तो उन्हें उसका भुगतान नहीं किया जाएगा.
 - ix. चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें.
 - x. उम्मीदवारों को उन्हीं के हित के लिए यह सूचना दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतज़ार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट में लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर भारी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. पूर्वोक्त कारणों से एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.
 - xi. पात्रता, साक्षात्कार आयोजित किए जाने, अन्य परीक्षाएं और चयन के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया जाएगा.
 - xii. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है.
 - xiii. पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं है. बैंक के पास उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच/शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उचित संख्या में ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार सुरक्षित है.
 - xiv. एक से अधिक आवेदन के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा.
 - xv. इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल व एकमात्र अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा.
 - xvi. शॉर्टलिस्टिंग के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले बाहरी उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान या वर्तमान पोस्टिंग के स्थान से भारत में सबसे छोटे मार्ग के लिए हवाई टिकट (इकोनॉमी क्लास) का यात्रा किराया 10,000/- रुपये (दोनों तरफ के लिए कुल) तक या वास्तविक खर्च (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो वास्तविक यात्रा के आधार पर टिकटों की प्रतियां प्रस्तुत करने के अधीन है. स्थानीय वाहन जैसे टैक्सी/कैब/निजी वाहन व्यय/किराया देय/प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा. यदि कोई उम्मीदवार को पद के लिए अपात्र पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी.
 - xvii. आवेदन पत्र एक बार प्रस्तुत कर दिए जाने पर उसमें किसी भी विवरण (श्रेणी सहित) में परिवर्तन/ सुधार के लिए अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में किसी पत्राचार/फोन/ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को सूचना दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को सावधानी से भरें और आवेदन में सही जानकारी प्रस्तुत करें.
 - xviii. बैंक किसी भी विशेष पद/सभी पदों के लिए किसी भी स्तर/समय पर बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
 - xix. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा.
- महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर किसी भी समय उम्मीदवारी रद्द/समाप्त कर दी जाएगी, भले ही उम्मीदवार का चयन हो गया हो, ऐसी परिस्थितियों में उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा. बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है. बैंक ऐसे प्रकटनों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

किसी जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट (<https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings>) पर उपलब्ध "CONTACT US/post your query" लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क करें.

मुंबई
11.11.2025

मुद्रण की त्रुटियाँ यदि हों, तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.
किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा.

महाप्रबंधक
(आरपी एवं पीएम)

आवेदन कैसे करें

<https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings> पर लॉगिन करें



नीचे स्क्रॉल करें और संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें



विज्ञापन सं. **CRPD/SCO/2025-26/16** डाउनलोड करें
(विस्तृत विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें)



ऑनलाइन आवेदन करें

(अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले, कृपया अपना आवेदन अच्छी तरह पढ़ लें.
अंतिम प्रस्तुतीकरण के बाद उसमें सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी)

